

17 अक्टूबर, 2022

COVID-19 बायवेलेंट बूस्टर पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

अपडेटेड COVID-19 बायवेलेंट बूस्टर के बारे में प्रश्नों के नवीनतम उत्तर प्रदान करने के लिए **इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (IDPH)** ने **बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)** दस्तावेज़ तैयार किया है। इस जानकारी को IDPH, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) और पार्टनर संस्थाओं के मूल मार्गदर्शन से तैयार किया गया है।

बायवेलेंट बूस्टर के लिए कौन पात्र है?

बायवेलेंट बूस्टर 5 और अधिक आयु वाले लोगों, जिन्होंने अपना प्राथमिक सीरीज (Moderna या Pfizer का 2 डोज़, J&J का 1 डोज़) प्राप्त कर लिया है, के लिए उपलब्ध हैं।

12 अक्टूबर, 2022, FDA ने 5 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए अपडेटेड COVID-19 टीके के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की।

- Pfizer-BioNTech का टीका 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है
- Moderna का टीका बच्चों और 6 से 17 वर्ष के किशोरों के लिए उपलब्ध है।
- पात्रता पर अधिक जानकारी के लिए, [CDC की टीके के साथ अप टू डेट रहें](#) वेबसाइट विजिट करें।

बायवेलेंट बूस्टर क्या करता है?

अपडेटेड (बायवेलेंट) बूस्टर को "बायवेलेंट" कहते हैं, क्योंकि वे COVID-19 और ओमिक्रोन वैरिएंट के कारक मूल वायरस दोनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें सब-वैरिएंट BA.4 and BA.5 शामिल हैं।

मुझे अपडेटेड बूस्टर कब लग सकता है?

किसी भी पात्र (ऊपर देखें) और जिसे कोई भी प्राथमिक सीरीज या पिछले 2 महीने में COVID-19 टीके की बूस्टर डोज़ नहीं लगी है, उन्हें अपना बूस्टर लेना चाहिए। **यदि आप पहले COVID-19 की जांच में पॉज़िटिव पाए गए हैं, तो अनुशंसा की जाती है कि टीका प्राप्त करने के लिए अपने COVID-19 संक्रमण तक न्यूनतम 3 माह के लिए प्रतीक्षा करें।**

बूस्टर डोज़ के लिए क्या मुझे किसी प्रकार का COVID-19 टीका मिल सकता है?

हां। CDC ने कहा है कि आप अपने बूस्टर डोज़ के लिए उपलब्ध बायवेलेंट COVID-19 टीकों को "मिक्स और मैच" कर सकते हैं।

बायवेलेंट बूस्टर के कितने डोज़ की आवश्यकता होगी?

CDC द्वारा इस समय पर केवल सिंगल डोज़ लेने की अनुशंसा की जाती है।

क्या होगा, यदि मैं इम्यूनोकोम्प्रोमाईज़्ड (निम्न रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला) हूँ?

यदि आप इम्यूनोकोम्प्रोमाईज़्ड हैं, तो यह आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप COVID-19 बूस्टर के साथ खुद को अपडेटेड रखें। CDC वेबसाइट विजिट करें: [मध्यम या गंभीर रूप से इम्यूनोकोम्प्रोमाईज़्ड लोगों के लिए CDC का COVID-19 टीका](#) पर अधिक जानकारी के लिए।

मुझे यह बायवेलेंट बूस्टर कहां से मिल सकता है?

आपके निकट के टीका प्रदाता को खोजने का सबसे अच्छा तरीका www.vaccines.gov पर जाना है और बायवेलेंट बूस्टर की उपलब्धता के लिए खोजना है।

क्या मैं एक साथ COVID-19 बायवेलेंट बूस्टर और फ्लू शॉट लगवा सकता हूँ?

हां – इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जांच और इलाज पर मार्गदर्शन सहित COVID-19 पर नवीनतम जानकारी के लिए, [IDPH कोरोनावायरस बीमारी 2019 \(COVID-19\)](#) वेबसाइट पर विजिट करें।